

# Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention  
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U  
R RR lR lRR  
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G  
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)  
T Th D Dh N  
t th d dh n  
p ph b bh m  
y r l L v  
S sh s h

## mahita pravRddha-kAmbhOji

In the kRti ‘mahita pravRddha’ – rAga kAmbhOji, SrI tyAgarAja sings  
praises of Mother pArvati at tapastIrthapuri – lalgudi.

P      'mahita pravRddha SrImati  
         guha gaNa pati janani

A      pAhi vadana jita sudhA-karE SrI-karE  
         pAhi suguNa ratnAkarE (mahita)

C1      dEhi caraNa bhaktim-akhila  
         dEhini sadA Subha  
         phaladE hima giri tanayE  
         vaidEhI-pa sahOdari (mahita)

C2      vAhin(I)Sa sannutE  
         <sup>2</sup>nav(A)hi bhUsha vallabhE  
         bhav(A)hi <sup>3</sup>nIla kaNThi <sup>4</sup>simha  
         vAhini janani (mahita)

C3      pArtha sannuta priyE  
         <sup>5</sup>pad(A)rthE apuNya dUrE  
         kAmit(A)rtha phaladE SrI  
         tapastIrtha pura nivAsini (mahita)

C4      rAja SEkhar(A)tma bhU  
         virAja rAja sannutE  
         sarOja daLa nibh(A)kshi tyAga-  
         rAja bhAgya dAyaki (mahita)

Gist

O Mother SrImati (name of Mother at tapastIrthapuri - Lalgudi) who is  
great in might! O Mother of Lord subrahmaNya and vinAyaka!

O Mother whose face surpasses the moon (in beauty)! O Mother who  
causes prosperity! O Ocean (or jewel-mine) of virtues!

O Mother who is the embodiment of Universe! O Mother who always bestows auspicious results! O Daughter of himavAn! O Sister of SrI rAma!

O Mother well-praised by varuNa! O Consort of Lord Siva! O Mother who is like a peacock to the snake of Worldly Existence! O Mother who rides a Lion! O Mother who bore us!

O Mother who is dear to Lord kRshNa! O Mother who shines as meaning of words (OR Substance of things)! O Mother who is far removed from those who are merit-less! O Mother who bestows fruits of desired objects! O Mother who is resident of tapastIrtha pura!

O Mother praised by Lord Siva, brahmA and vishNu! O Mother who has eyes resembling the Lotus petal! O Mother who bestows of blessedness (or fortune) to this tyAgarAja!

Please protect me.

Please bestow on me devotion to Your holy feet.

#### Word-by-word Meaning

P O Mother SrImati (name of Mother at tapastIrthapuri - Lalgudi) who is great (pravRddha) in might (mahita) ! O Mother (janani) of Lord subrahmaNya (guha) and vinAyaka (gaNa pati)!

A Please protect (pAhi) me, O Mother whose face (vadana) surpasses (jita) the moon (sudhA-kara) (sudhAkarE) (in beauty)! O Mother who causes (karE) prosperity (SrI)!

Please protect (pAhi) me, O Ocean (or jewel-mine) (ratnAkara) (ratnAkarE) of virtues (suguNa)!

O Mother SrImati who is great in might! O Mother of Lord subrahmaNya and vinAyaka!

C1 Please bestow (dEhi) on me devotion (bhaktim) to Your holy feet (caraNa), O Mother who is the embodiment (dEhini) of Universe (akhila) (bhaktim-akhila)! O Mother who always (sadA) bestows auspicious (Subha) results (phaladE)!

O Daughter (tanayE) of himavAn – the mountain (giri) of snow (hima)! O Sister (sahOdari) of SrI rAma - the Consort (pa) of sItA – belonging to vidEha country (vaidEhI)(vaidEhI-pa)!

O Mother SrImati who is great in might! O Mother of Lord subrahmaNya and vinAyaka!

C2 O Mother well-praised (sannutE) by varuNa - Lord (ISa) of rivers (vAhini) (vAhinISa)! O Consort (vallabhE) of Lord Siva – one who is adorned (bhUsha) with blessed (or nine) (nava) SEsha – serpent(s) (ahi) (navAhi)!

O Mother (janani) who is like a peacock (nIlA-kaNThi) to the snake (ahi) of Worldly Existence (bhava) (bhavAhi)! O Mother who rides (vAhini) a Lion (simha)! O Mother (janani) who bore us!

O Mother SrImati who is great in might! O Mother of Lord subrahmaNya and vinAyaka!

C3 O Mother who is dear (priyE) to Lord kRshNa – one praised (sannuta) by arjuna (pArtha)! O Mother who shines as meaning (arthE) of words (pada) (OR Substance of things)! O Mother who is far removed (dUrE) from those who are merit-less (apuNya)!

O Mother who bestows fruits (phaladE) of desired (kAmita) objects (artha) (kAmitArtha)! O Mother who is resident (nivAsini) of tapastIrtha pura – (modern day lAlguDi)!

O Mother SrImati who is great in might! O Mother of Lord subrahmaNya and vinAyaka!

C4 O Mother praised (sannutE) by Lord Siva – one who wears digit of Moon (rAja) on His head (SEkhara), brahmA – self-born (Atma- bhUH) and vishNu – Lord (rAja) of garuDa - king of birds (vi-rAja)!

O Mother who has eyes (akshi) resembling (nibha) (nibhAkshi) the Lotus (sarOja) petal (daLa)! O Mother who bestows (dAyaki) of blessedness (or fortune) (bhAgya) to this tyAgarAja!

O Mother SrImati who is great in might! O Mother of Lord subrahmaNya and vinAyaka!

Notes –  
Variations –

References –

<sup>1</sup> – mahita pravRddha SrImati – The name of Mother at tiruttavatturai (Lalgudi) is given as 'SrImati' in the following website. However, it is not clear whether 'mahita pravRddha' also is part of the name or an epithet.  
<http://www.templenet.com/Tamilnadu/tavatturai.html>

<sup>4</sup> – simha vAhini – who rides a Lion. In North India, durgA is stated to ride a tiger. The reason for this is given in the website –  
<http://www.tamilbrahmins.com/archive/index.php/t-1323.html>

<sup>5</sup> – padArtha – Substance of things – For a discussion on what is 'padArtha bhAva', visit - [http://www.swami-krishnananda.org/katha/ka\\_6.html](http://www.swami-krishnananda.org/katha/ka_6.html)

Comments -

<sup>2</sup> – navAhi – The word 'nava' may mean 'nine' or 'new' or 'young' or 'modern' etc; this word (nava) is also a praise.

<sup>3</sup> – nIla kaNTha – blue throated - normally Lord Siva is referred by this name; it also means 'peacock'.

## Devanagari

प. महित प्रवृद्ध श्रीमति

गुह गण पति जननि

अ. पाहि वदन जित सुधा-करे श्री-करे

पाहि सुगुण रत्नाकरे (महित)

च1. देहि चरण भक्ति(म)खिल

देहिनि सदा शुभ

फलदे हिम गिरि तनये

वैदेही-प सहोदरि (महित)

च2. वाहि(नी)श सन्नुते

न(वा)हि भूष वल्लभे

भ(वा)हि नील कण्ठि सिम्ह  
वाहिनि जननि (महित)

च3. पार्थ सन्नत प्रिये  
पदार्थे अपुण्य दूरे  
कामि(ता)र्थ फलदे श्री  
तपस्तीर्थ पुर निवासिनि (महित)

च4. राज शेख(रा)त्म-भू  
विराज राज सन्नते  
सरोज दल नि(भा)क्षि त्याग-  
राज भाग्य दायकि (महित)

### English with Special Characters

- pa. mahita pravṛddha śrīmati  
guha gaṇa pati janani
- a. pāhi vadana jita sudhā-karē śrīkarē  
pāhi suguṇa ratnākarē (mahita)
- ca1. dēhi caraṇa bhakti(ma)khila  
dēhini sadā śubha  
phaladē hima giri tanayē  
vaidēhī-pa sahōdari (mahita)
- ca2. vāhi(nī)śa sannutē  
na(vā)hi bhūṣa vallabhē  
bha(vā)hi nīla kaṇṭhi simha  
vāhini janani (mahita)
- ca3. pārtha sannuta priyē  
padārthē apuṇya dūrē  
kāmi(tā)rtha phaladē śrī  
tapastīrtha pura nivāsini (mahita)
- ca4. rāja śēkha(rā)tma-bhū

virāja rāja sannutē  
sarōja daḷa ni(bhā)kṣi tyāga-  
rāja bhāgya dāyaki (mahita)

### Telugu

- ప. మహిత ప్రవృద్ధ శ్రీమతి  
గుహ గణ పతి జనని  
అ. పాహి వదన జిత సుధా-కరే శ్రీకరే  
పాహి సుగుణ రత్నాకరే (మహిత)  
చ1. దేహి చరణ భక్తి(మ)ఖిల  
దేహిని సదా శుభ  
ఫలదే హిమ గిరి తనయే  
వైదేహి-ప సహోదరి (మహిత)  
చ2. వాహి(నీ)శ సన్నతే  
న(వా)హి భూష వల్లభే  
భ(వా)హి నీల కణ్ఠి సింహ  
వాహిని జనని (మహిత)  
చ3. పార్థ సన్నత ప్రియే  
పదార్థే అపుణ్య దూరే  
కామి(తార్థ) ఫలదే శ్రీ  
తపస్తీర్థ పుర నివాసిని (మహిత)  
చ4. రాజ శేఖ(రా)త్మ-భూ  
విరాజ రాజ సన్నతే  
సరోజ దళ ని(భా)క్షి త్యాగ-  
రాజ భాగ్య దాయకి (మహిత)

### Tamil

- ప. మఱితి ప్రవృత్త<sup>3</sup> శ్రీమతి  
క్ర<sup>3</sup>హ క<sup>3</sup>ణ పతి జనని  
అ. పాఱి వత్త<sup>3</sup>న జిత సుతా<sup>4</sup>-కరే శ్రీ-కరే  
పాఱి సు-క్ర<sup>3</sup>ణ రత్నాకరే (మఱితి)  
చ1. తే<sup>3</sup>ఱి శరణ ప<sup>4</sup>క్తి(మ)కి<sup>2</sup>ల  
తే<sup>3</sup>ఱిని సతా<sup>3</sup> **సు**ప<sup>4</sup>  
ప<sup>2</sup>లతే<sup>3</sup> ఱిమ కి<sup>3</sup>గి తనయే  
వైతే<sup>3</sup>ఱి-ప సఱేఱాత్<sup>3</sup>గి (మఱితి)

- ச2. வாஹி(னீ)ஸ ஸன்னுதே  
 ந(வா)ஹி பூ<sup>4</sup>ஷ வல்லபே<sup>4</sup>  
 ப<sup>4</sup>(வா)ஹி நீல கண்டி<sup>2</sup> ஸிம்ஹ  
 வாஹினி ஜனனி (மஹித)  
 ச3. பார்த<sup>2</sup> ஸன்னுத ப்ரியே  
 ப(தா<sup>3</sup>)ர்தே<sup>2</sup> அபுண்ய தூ<sup>3</sup>ரே  
 காமி(தா)ர்த<sup>2</sup> ப<sup>2</sup>லதே<sup>3</sup> ஸ்ரீ  
 தபஸ்தீர்த<sup>2</sup> புர நிவாஸினி (மஹித)  
 ச4. ராஜ ஸேக<sup>2</sup>(ரா)த்ம-பூ<sup>4</sup>  
 விராஜ ராஜ ஸன்னுதே  
 ஸரோஜ த<sup>3</sup>ள நி(பா<sup>4</sup>)க்ஷி த்யாக<sup>3</sup>-  
 ராஜ பா<sup>4</sup>க்<sup>3</sup>ய தா<sup>3</sup>யகி (மஹித)

மகிமை மிக்கு திருமதியே!  
 குகன் கணபதியை ஈன்றவளே!

காப்பாய், வதனத்தில் மதியை வென்றவளே! சீரருள்பவளே!  
 காப்பாய், நற்குணக் கடலே (இரத்தினச் சுரங்கமே)!  
 மகிமை மிக்கு திருமதியே!  
 குகன் கணபதியை ஈன்றவளே!

1. அருள்வாய் திருவடிப் பற்றினை, அனைத்துலக  
 வடிவினளே! எவ்வயமும் நலன்  
 அருள்பவளே! இமவான் மடந்தையே!  
 வைதேகி மணாளன் சோதரியே!  
 மகிமை மிக்கு திருமதியே!  
 குகன் கணபதியை ஈன்றவளே!

2. கடலரசனால் போற்றப் பெற்றவளே!  
 அரவணியோன் இல்லாளே!  
 பிறவிக் கடலெனும் அரவினுக்கு மயிலே!  
 அரியேறுபவளே! (எமை) ஈன்றவளே!  
 மகிமை மிக்கு திருமதியே!  
 குகன் கணபதியை ஈன்றவளே!

3. பார்த்தனால் போற்றப் பெற்றோனுக்கினியவளே!  
 சொற்பொருளே! நல்வினை யற்றோருக்கு துரமே!  
 வேண்டியவற்றின் பயனருள்பவளே!  
 திருத்தவத்துறை நகருறையே!  
 மகிமை மிக்கு திருமதியே!  
 குகன் கணபதியை ஈன்றவளே!

4. மதியணியோன், தான்தோன்றி,  
 கருடனின் தலைவனால் போற்றப் பெற்றவளே!  
 தாமரையிதழ் நிகர் கண்ணினளே!  
 தியாகராசனுக்கு பேறருள்பவளே!

ಮಕಿಮೆ ಮಿಕ್ಕು ತಿರುಮತಿಯೇ!  
ಕುಕನ್ ಕಣಪತಿಯೆ ಉನ್ನವಣೇ!

ತಿರುಮತಿ - ತಿರುತ್ತವತ್ತುರೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಯಿನ್ ಪೆಯರ್  
ಕುಕನ್ - ಮುರುಕನ್  
ವೇತೇಕಿ ಮಣಾಣನ್ - ಇರಾಮನ್  
ಪಾರ್ತ್ತನ್ - ಅರುಕ್ಕುಣನ್  
ಪಾರ್ತ್ತನಾಲ್ ಪೋರ್ತ್ತಂ ಪೆರ್ತ್ತೋನ್ - ಕಣ್ಣನ್  
ಸೊರ್ಪೊರುಣೇ - ಪೊರುಡುಕುಣಿನ್ ಸಾರಮೇ ಉನ್ನಂ ಕೂಗುಲಾಂ  
ಮತಿಯಣಿವೋನ್ - ಸಿವನ್  
ತಾನ್ತೋನ್ರಿ - ಪಿರಮನ್  
ಕರುಡುಣಿನ್ ತಲವನ್ - ಅರಿ

## Kannada

ಪ. ಮಹಿತ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಶ್ರೀಮತಿ

ಗುಹ ಗಣ ಪತಿ ಜನನಿ

ಅ. ಪಾಹಿ ವದನ ಜಿತ ಸುಧಾ-ಕರೇ ಶ್ರೀಕರೇ

ಪಾಹಿ ಸುಗುಣ ರತ್ನಾಕರೇ (ಮಹಿತ)

ಚ೦. ದೇಹಿ ಚರಣ ಭಕ್ತಿ(ಮ)ಖಿಲ

ದೇಹಿನಿ ಸದಾ ಶುಭ

ಫಲದೇ ಹಿಮ ಗಿರಿ ತನಯೇ

ವೈದೇಹೀ-ಪ ಸಹೋದರಿ (ಮಹಿತ)

ಚ೧. ವಾಹಿ(ನೀ)ಶ ಸನ್ನತೇ

ನ(ವಾ)ಹಿ ಭೂಷ ವಲ್ಲಭೇ

ಭ(ವಾ)ಹಿ ನೀಲ ಕಣ್ಣಿ ಸಿಮ್ಮ

ವಾಹಿನಿ ಜನನಿ (ಮಹಿತ)

ಚ೨. ಪಾರ್ಥ ಸನ್ನತ ಪ್ರಿಯೇ

ಪದಾರ್ಥೇ ಅಪುಣ್ಯ ದೂರೇ

ಕಾಮಿ(ತಾ)ರ್ಥ ಫಲದೇ ಶ್ರೀ

ತಪಸ್ವೀರ್ಥ ಪುರ ನಿವಾಸಿನಿ (ಮಹಿತ)

ಚ೩. ರಾಜ ಶೇಖ(ರಾ)ತ್ಮ-ಭೂ

ವಿರಾಜ ರಾಜ ಸನ್ನತೇ

ಸರೋಜ ದಳ ನಿ(ಭಾ)ಕ್ತಿ ತ್ಯಾಗ-  
ರಾಜ ಭಾಗ್ಯ ದಾಯಕಿ (ಮಹಿತ)

### Malayalam

- ಎ. ಮಹಿತ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಶ್ರೀಮತಿ  
ಗುಹ ಗಣ ಪತಿ ಜನನಿ  
ಆ. ಪಾಹಿ ವರದ ಜಿತ ಸುಧಾ-ಕರೇ ಶ್ರೀಕರೇ  
ಪಾಹಿ ಸುಗುಣ ರತ್ನಾಕರೇ (ಮಹಿತ)
- ಎ1. ಡೇವಿ ಚರಣ ಭಕ್ತಿ(ಮ)ಖಿಲ  
ಡೇವಿನಿ ಸದಾ ಶುಭ  
ಫಲದೇ ಹಿಮ ಗಿರಿ ತನಯೇ  
ರೈದೇಹಿ-ಪ ಸಹೋದರಿ (ಮಹಿತ)
- ಎ2. ವಾಹಿನಿ(ನಿ)ಶ ಸನ್ಮತೇ  
ನ(ವಾ)ಹಿನಿ ಡ್ಯುಷ ವಲ್ಲಭೇ  
ಓ(ವಾ)ಹಿನಿ ನೈಲ ಕನ್ಯಾ ಸಿಂಹ  
ವಾಹಿನಿ ಜನನಿ (ಮಹಿತ)
- ಎ3. ಪಾರ್ಥ ಸನ್ಮತ ಪ್ರಿಯೇ  
ಪಾರ್ಥವೇ ಅಪುನ್ಯ ರೂರೇ  
ಕಾಮಿ(ತಾ)ರ್ಮ ಫಲದೇ ಶ್ರೀ  
ತಪಸ್ವಿತೀರ್ಮ ಪೂರ ನಿವಾಸಿನಿ (ಮಹಿತ)
- ಎ4. ರಾಜ ಶೇಖ(ರಾ)ವ-ಭೂ  
ವಿರಾಜ ರಾಜ ಸನ್ಮತೇ  
ಸರೋಜ ರತ್ನ ನಿ(ರಾ)ಕ್ಷಿ ತ್ಯಾಗ-  
ರಾಜ ಭಾಗ್ಯ ದಾಯಕಿ (ಮಹಿತ)

### Assamese

- ಪ. ಮಹಿತ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಶ್ರೀಮತಿ  
ಗುಹ ಗಣ ಪತಿ ಜನನಿ  
ಅ. ಪಾಹಿ ವರದ ಜಿತ ಸುಧಾ-ಕರೇ ಶ್ರೀಕರೇ  
ಪಾಹಿ ಸುಗುಣ ರತ್ನಾಕರೇ (ಮಹಿತ)
- ಎ1. ದೇಹಿ ಚರಣ ಭಕ್ತಿ(ಮ)ಖಿಲ  
ದೇಹಿನಿ ಸದಾ ಶುಭ  
ಫಲದೇ ಹಿಮ ಗಿರಿ ತನಯೇ  
ರೈದೇಹಿ-ಪ ಸಹೋದರಿ (ಮಹಿತ)
- ಎ2. ರಾಹಿನಿ(ನಿ)ಶ ಸನ್ಮತೇ  
ನ(ರಾ)ಹಿನಿ ಭೂಷ ರತ್ನಾಕರೇ



ভ(রা)হি নীল কণ্ঠি সিম্হ  
রাহিনি জননি (মহিত)

চ৩. পার্থ সন্মুত প্রিয়ে  
পদার্থে অপুণ্য দূরে  
কামি(তা)র্থ ফলদে শ্রী  
তপস্জীর্থ পুর নিরাসিনি (মহিত)

চ৪. রাজ শেখ(বা)অ-ভূ  
রিবাজ রাজ সন্মুতে  
সরোজ দল নি(ভা)ক্ষি আগ-  
রাজ ভাণ্য দায়কি (মহিত)

### **Bengali**

প. মহিত প্রবৃদ্ধ শ্রীমতি  
গুহ গণ পতি জননি  
অ. পাহি বদন জিত সুধা-করে শ্রীকরে  
পাহি সুগুণ রত্নাকরে (মহিত)

চ১. দেহি চরণ ভজি(ম)খিল  
দেহিনি সদা শুভ  
ফলদে হিম গিরি তনয়ে  
বৈদেহী-প সহোদরি (মহিত)

চ২. বাহি(নী)শ সন্মুতে  
ন(বা)হি ভূষ বল্লভে  
ভ(বা)হি নীল কণ্ঠি সিম্হ  
বাহিনি জননি (মহিত)

চ৩. পার্থ সন্মুত প্রিয়ে  
পদার্থে অপুণ্য দূরে

કામિ(તા)ર્થ ફલદે શ્રી  
તપસ્તીર્થ પુર નિવાસિનિ (મહિત)

૮૪. રાજ શેખ(રા)ઝ-ઝૂ  
વિરાજ રાજ સન્નુતે  
સરોજ દલ નિ(ભા)ક્ષિ આગ-  
રાજ ભાગ્ય દાયકિ (મહિત)

### Gujarati

૫. મહિત પ્રવૃદ્ધ શ્રીમતિ  
ગુહ ગણ પતિ જનનિ  
અ. પાહિ વદન જિત સુધા-કરે શ્રીકરે  
પાહિ સુગુણ રત્નાકરે (મહિત)  
ચ૧. દેહિ ચરણ ભકિત(મ)ખિલ  
દેહિનિ સદા શુભ  
ફલદે હિમ ગિરિ તનયે  
વૈદેહી-પ સહોદરિ (મહિત)  
ચ૨. વાહિ(ની)શ સન્નુતે  
ન(વા)હિ ભૂષ વલ્લભે  
ભ(વા)હિ નીલ કણિઠ સિમ્હ  
વાહિનિ જનનિ (મહિત)  
ચ૩. પાર્થ સન્નુત પ્રિયે  
પદાર્થ અપુણ્ય દૂરે  
કામિ(તા)ર્થ ફલદે શ્રી  
તપસ્તીર્થ પુર નિવાસિનિ (મહિત)  
ચ૪. રાજ શેખ(રા)ત્મ-ભૂ  
વિરાજ રાજ સન્નુતે  
સરોજ દલ નિ(ભા)ક્ષિ ત્યાગ-  
રાજ ભાગ્ય દાયકિ (મહિત)

### Oriya

૯૦. નહિત વૃદ્ધ શ્રીમતિ

ଗୁହ ଗଣ ପତି ଜନନି

ଅ. ପାହି ଓଦନ ଜିତ ସୁଧା-କରେ ଶ୍ରୀକରେ

ପାହି ସୁଗୁଣ ରତ୍ନାକରେ (ମହିତ)

ଚ୧. ଦେହି ଚରଣ ଭକ୍ତି(ମ)ଖିଲ

ଦେହିନି ସଦା ଶୁଭ

ଫଳଦେ ହିମ ଗିରି ତନୟେ

ଝୈଦେହୀ-ପ ସହୋଦରି (ମହିତ)

ଚ୨. ଖାହି(ନୀ)ଶ ସନ୍ନତେ

ନ(ଖା)ହି ଭୁଷ ଖଲ୍ଲଭେ

ଭ(ଖା)ହି ନୀଲ କଣି ସିମ୍ବ

ଖାହିନି ଜନନି (ମହିତ)

ଚ୩. ପାର୍ଥ ସନ୍ନତ ପ୍ରିୟେ

ପଦାର୍ଥେ ଅପୁଣ୍ୟ ଦୂରେ

କାମି(ତା)ର୍ଥ ଫଳଦେ ଶ୍ରୀ

ତପସ୍ଥାର୍ଥ ପୁର ନିଖାସିନି (ମହିତ)

ଚ୪. ରାଜ ଶେଖ(ରା)ତ୍ନ-ଭୁ

ଓରାଜ ରାଜ ସନ୍ନତେ

ସରୋଜ ଦଳ ନି(ଭା)ଷି ତ୍ୟାଗ-

ରାଜ ଭାଗ୍ୟ ଦାୟିକି (ମହିତ)

## **Punjabi**

୫. ମਹିତ ଧୃତିଦୟ ସ୍ତ୍ରୀମତି

ଗୁହ ଗଣ ପତି ଜନନି

ଅ. ପାହି ବଦନ ସିତ ସୁଧା-କରେ ସ୍ତ୍ରୀକରେ

ପାହି ସୁଗୁଣ ରତନାକରେ (ମହିତ)

ଚ୧. ଦେହି ଚରଣ ଭକ୍ତି(ମ)ଖିଲ

ਦੇਹਿਨਿ ਸਦਾ ਸੁਭ  
ਫਲਦੇ ਹਿਮ ਗਿਰਿ ਤਨਯੇ  
ਵੈਦੇਹੀ-ਪ ਸਹੋਦਰਿ (ਮਹਿਤ)

ਚ੨. ਵਾਹਿ(ਨੀ)ਸ਼ ਸੱਨੁਤੇ  
ਨ(ਵਾ)ਹਿ ਭੂਸ਼ ਵੱਲਭੇ  
ਭ(ਵਾ)ਹਿ ਨੀਲ ਕਣਿਠ ਸਿਸ੍ਰੁ  
ਵਾਹਿਨਿ ਜਨਨਿ (ਮਹਿਤ)

ਚ੩. ਪਾਰਥ ਸੱਨੁਤ ਪ੍ਰਿਯੇ  
ਪਦਾਰਥੇ ਅਪੁਲ੍ਯ ਦੂਰੇ  
ਕਾਮਿ(ਤਾ)ਰਥ ਫਲਦੇ ਸ਼੍ਰੀ  
ਤਪਸਤੀਰਥ ਪੁਰ ਨਿਵਾਸਿਨਿ (ਮਹਿਤ)

ਚ੪. ਰਾਜ ਸ਼ੇਖ(ਰਾ)ਤਮ-ਭੂ  
ਵਿਰਾਜ ਰਾਜ ਸੱਨੁਤੇ  
ਸਰੋਜ ਦਲ ਨਿ(ਭਾ)ਕਿਸ਼ ਤਯਾਗ-  
ਰਾਜ ਭਾਰਾਜ ਦਾਯਕਿ (ਮਹਿਤ)